

जैन समाजात प्रचंड खपाचे व लोकप्रिय मासिक



# जैन जागृति

(Since 1969)

www.jainjagruiti.in

६२ ऋतुराज सोसायटी, पुणे-सातारा रोड, भापकर पेट्रोल पंपा  
समोर, सिटी प्राईडच्या पुढची लेन, पुणे ४११०३७.

☎ : (०२०) २४२१५५८३

मोबाईल : संजय ९८२२०८६९९७, सुनंदा ९४२३५६२९९१

❖ संस्थापक ❖

संपादक व प्रकाशक : संजय के. चोरडिया एम.ए.

स्व. श्री. कांतीलालजी चोरडिया

संपादिका : सौ. सुनंदा एस. चोरडिया बी.कॉम.

❖ वर्ष ४९ वे ❖ अंक १ ला ❖ सप्टेंबर २०१७ ❖ वीर संवत् २५४३ ❖ विक्रम संवत् २०७३

या अंकात	पान नं.	पान नं.
● जैन जागृति ४९ व्या वर्षात पदार्पण	२३	● आदमी 'मजाक' है..... (२) १०३
● पर्युषण के आठ दिन - आठ जीवन सूत्र	२५	● कैसे बचें आत्महत्या से १११
● कव्हर तपशील	३१	● जीवन का एक पल भी, कभी व्यर्थ में मत खोना ११२
● वॉटर कप स्पर्धा - भारतीय जैन संघटना	३३	● जैन दर्शन एवं पर्यावरण संरक्षण ११५
● ॥ जिनेश्वरी ॥ अध्याय १६ - ब्रह्मचर्य समाधीस्थान	४३	● प्रेरक कहानियाँ १२०
● मृत्यु का डर	४९	● क्रोध आने पर क्या करें ? १२१
● ऊर्जा रो सन्मान कर	५१	● भाव प्रतिक्रमण १२३
● पर्युषण महापर्व हमारी उदास जिंदगी को उत्सव से जोड़कर चला जाता है	५६	● जीवन संस्कारमय करण्यासाठी १२५
● कडवे प्रवचन	५७	● शुन्य पर आऊट १२७
● दीपावली पूजन विधी	६७	● व्रत पालन से आत्मलाभ १२९
● दीपावली पूजन मुहूर्त	७३	● नेत्रदान सर्व श्रेष्ठदान १३१
● ज्ञानपूर्वक करे साधना	७५	● धर्माच्या कॉलम मध्ये जैन लिहा १३३
● क्या है पसंद ? क्षमा या सजा ?	८१	● सुसाधु होते तत्वपरायण १३५
● जेलर : समता - आत्महिताचा शॉर्टकट	९१	● विश्व मैत्री का प्रतिक - क्षमापना १३७
● डायमंड डायरी	१००	● जहाँ सन्त, वहाँ वसन्त १४०
		● विनोदाची अत्तरदाणी १४३

❖ जैन जागृति ❖ सप्टेंबर २०१७ ❖ १९ ❖

● पर्युषण पर्व एवं क्षमापना पर्व	१४४	● श्री प्रीतिसुधाजी शिक्षण फंड, नाशिक	१७२
● जागृत विचार	१४५	● संचेती ट्रस्ट, पुणे	१७३
● आत्म्याला ओळखायचयं	१४५	● आनंदऋषिजी हॉस्पिटल - अहमदनगर	१७५
● सुखी जीवन की चाबियाँ - देशाचार पालन	१४७	● गौतमलब्धि फाऊंडेशन	१७७
● हास्य जागृति	१४९	● वीतराग सेवा संघ, पुणे	१८०
● क्या हम अपने कर्तव्यों के प्रति सजग है ?	१५१	● भारतीय जैन संघटना, पुणे - संम्मेलन	१८१
● भगवती सूत्र सेमिनार	१५५	● बालमुनी श्लोकाचे वाचन, पुणे	१८५
● शब्दों का सौंदर्य	१५६	● महावीर फूड बॅक, पुणे	१८७
● वैचारिक प्रदुषण का करें प्रक्षालन	१५९	● श्री. संतोषजी जैन, पुणे - सन्मान	१८८
● गागर में सागर	१६१	● आहार ग्रहण : काही तथ्य	१८९
● एंगर मॅनेजमेंट	१६३	● शतावधान कार्यक्रम, पुणे	१९७
● संवर : धर्म का द्वार	१६८	● संकल्प से सफलता	१९९
● मैं चंडकौशिक	१६९	● जन्म मरण मिटेंगे कब	२०७
● श्री उवस्सगहरं स्तोत्र पठण, पुणे	१७१	● पुणे मनपा जैन व्यक्तीचा सत्कार	२०९
		● विविध बातम्या	

जैन जागृति मासिकाचे वर्गणी दर ❖ एका वर्षात तीन मोठ्या अंकासहित, एकूण अंक १२

पंचवार्षिक रु. २२००

त्रिवार्षिक रु. १३५०

वार्षिक रु. ५०० रु.

या अंकाची किंमत ५० रुपये.

● www.jainjagruti.in

● www.facebook.com/jainjagrutimagazine

जैन जागृति वर्गणी व जाहिरात - रोख/मनिऑर्डर/ड्राफ्ट/AT PAR चेक/ पुणे चेकने / RTGS / SBI Online / Jain Jagruti Website इत्यादी द्वारा पाठवावी.

**BANK ACCOUNT DETAILS - A/C Name : JAIN JAGRUTI**

Bank : STATE BANK OF INDIA

Branch : Market Yard, Pune 37.

Current A/c No. : 10521020146

IFS Code : SBIN0006117

'जैन जागृति' हे मासिक मालक, मुद्रक व प्रकाशक एस. के. चोरडिया यांनी प्रकाश ऑफसेट, शॉप नं. १२-१३, पर्वती टॉवर्स, पुणे - ४११००९ येथे छापून ६२ बी, ऋतुराज सोसायटी, पुणे-सातारा रोड, पुणे - ४११ ०३७ येथे प्रसिध्द केले. संपादक - एस. के. चोरडिया

"Jain Jagruti" monthly magazine is owned, printed & published by S. K. Chordia, Printed at Prakash Offset, Shop No. 12-13, Parvati Towers, Pune 411009. Published at 62-B, Ruturaj Society, Pune - Satara Road, Pune - 411037. Editor - S. K. Chordia

टिप : या अंकात प्रसिध्द झालेल्या मतांशी संपादक सहमत असतीलच असे नाही. जैन जागृति संबंधित कोणत्याही कायदेशीर कारवाईसाठी पुणे न्यायलय क्षेत्र ग्राह्य घरेले जाईल.

❖ जैन जागृति ❖ सप्टेंबर २०१७ ❖ २० ❖

## जैन जागृति मासिकात जाहिरात व वर्गणीसाठी संपर्क करा

फोन (०२०) २४२१५५८३ मो. संजय: ९८२२०८६९९७ सुनंदा: ९४२३५६२९९१, [www.jainjagruti.in](http://www.jainjagruti.in)  
Email : [jainjagruti1969@gmail.com](mailto:jainjagruti1969@gmail.com) • Press Email : [prakash.offset@rediffmail.com](mailto:prakash.offset@rediffmail.com)

### ◆ जैन जागृतिचे प्रतिनिधी ◆

- ❖ भोसरी, चिंचवड, निगडी - श्री. चांदमलजी लुंकड - फोन : २७११९९४९, मो. ९९२१९१९४०९
- ❖ पुणे शहर ❖ कुर्डुवाडी - श्री. सुभाष मोहनलाल लुणिया, मो. ८७९३००००८१
- ❖ गुरूवार पेठ, पुणे - श्री. जैन पुस्तक भंडार, फोन : २४४७२९५८
- ❖ धनकवडी, पुणे - श्री. सुरेंद्र हिरालालजी बोरा, मो. ७५८८९४३०१५
- ❖ मार्केटयार्ड, पुणे - श्री. प्रमोदकुमार शांतीलालजी छाजेड, मो. : ९८८१८७३७१०
- ❖ महावीर प्रतिष्ठान, पुणे - निलम रमेशचंद्र शहा, मो. ९०९६८००५४७
- ❖ सदाशिव पेठ परिसर, पुणे - सौ. स्वाती राजेंद्रजी कटारिया, मो. : ९८८१२०४३९०
- ❖ वडगाव शेरी, पुणे - सौ. भारती सुभाष नहार, मो. : ९८९०२७८३४६
- ❖ वडगाव मावळ, पुणे - श्री. राजेंद्र बाफना, मो. ९८२२२६२९०१
- ❖ खडकी, पुणे - श्री. विलास मुथा, मो. ९६२३१४८९८४
- ❖ औंध, पाषाण, हिंजवडी, सांगवी, थेरगाव - श्री. शिरीषकुमार शांतीलालजी डुंगरवाल, मो. ९०२१३००५५९
- ❖ दापोडी, पुणे - श्री. प्रवीण झुंबरलालजी चोरडिया, मो. ९९२२७५७७०६
- ❖ नांदेड सिटी, पुणे - श्री. प्रकाशजी हरकचंदजी बोथरा, मो. ९०११९८३६६६
- ❖ दौंड, श्रीगाँदा - श्री. रविंद्र चैनसुखलालजी गुगळे - ९८९०७२३४०२
- ❖ अहमदनगर - श्री. महेश एम. मुनोत- मो. ९४२०६३९२३०
- ❖ जामखेड, आष्टी व कर्जत तालुका - श्री. प्रफुल शांतीलालजी सोलंकी - मो. ९४०३६८५६७७, ८०८७७०००७७
- ❖ सोनई - श्री. मदनलालजी सी. भळगट - फोन : ०२४२७-२३१४६१, मो. ९८८१४१४२१७
- ❖ औरंगाबाद - श्री. सुभाषचंदजी मांडोत-फोन: (०२४०) २३५३४३८ मो.: ९४२२७०५९२१
- ❖ मुंबई खारघर- श्री. मदनलालजी गांधी-मो. ९८२०५३६७९३
- ❖ नाशिक - श्री. पुखराजजी बाबुलालजी जैन (कवाड) फोन: ०२५३-२३११००८, मो. ९४२३९३९९९०
- ❖ नाशिक - मनोज लखीचंदजी खिंवसरा, रविवार पेठ, नाशिक. मो. ९७६२२२१५०५
- ❖ बीड - श्री. अतुलकुमार शरदचंद्रजी कोटेचा, मो. ९९६००२४२२४
- ❖ गारगोटी (जि. कोल्हापूर) श्री. श्रीकांत राजाराम शहा, मो. ९८६०१०७७९२
- ❖ श्रीरामपूर - श्री. निलेश सुवालालजी हिरण, मो. : ९३२६९७२७४७
- ❖ लासलगाव - श्री. मनसुखजी साबद्रा, मो. : ७७७४९३८०३२
- ❖ बारामती- डॉ. महावीर छगनलालजी संचेती, फोन : ०२११२-२२३८०७ मो.: ९३२५००४९५०
- ❖ अमळनेर, जि. जळगाव - श्री. मयुरकुमार केवलचंदजी जैन, मो. ९४२२६५७१७७
- ❖ जळगाव - श्री. अनील कुचेरिया, मो. : ९७६३६४५०५५
- ❖ धुळे - श्री. चेतन सतिष कोटेचा, सुभाषनगर, धुळे, मो. ९४०४१९२४३४, ९४२०६६१४२६
- ❖ शहादा, जि. नंदुरबार - श्री. मनोजकुमार विरचंदजी बाफना, मो. ९४२१५२९६२६
- ❖ इचलकरंजी, जि. कोल्हापूर - श्री. पोपटलालजी बिसनदासजी गुगळे, मो. ९८२२६५०९९८
- ❖ मिरज, जि. सांगली - श्री. राजेंद्र वसंतलाल शहा, मो. ९४२११०५७४८
- ❖ कोल्हापूर - सौ. लता कांतीलालजी ओसवाल, मो. ९४२३२८६०१४ फोन. ०२३१-२५४२२५३
- ❖ सातारा व सातारा जिल्हा - श्री. जयकुमार कांतीलाल शहा, वाठार, मो. - ७५८८५६१३२०, ९८५०१८२६४४

❖ जैन जागृति ❖ सप्टेंबर २०१७ ❖ २१ ❖

## जैन जागृति ४९ व्या वर्षात पदार्पण...



जैन जागृतिचे संस्थापक  
स्व. श्री. कांतिलालजी फुलचंदजी चोरडिया



संजय चोरडिया



संपादक

सौ. सुनंदा चोरडिया

सप्टेंबर २०१७-पर्युषण अंका बरोबर जैन जागृति मासिकाने ४८ व्या वर्षाची वाटचाल पूर्ण करून ४९ व्या वर्षात पदार्पण केले आहे. वर्गणीदार, जाहिरातदार, लेखक, पत्रप्रचारक, प्रिटींग प्रेस, बायंडर, पोस्ट ऑफीस आणि हितचिंतक यांच्या सहयोगाने व सहकार्यां मुळेच जैन जागृतिने ४८ वर्षे आपली यशस्वी वाटचाल पूर्ण केली आहे.

जैन इतिहास, जैनांची थोर परंपरा, कथा साहित्य, धार्मिक व सामाजिक कार्याची माहिती समाज बांधवां पर्यंत पोहोचवणे व जैन बांधवात धर्म जागृति, जैनत्वाचा

अभिमान निर्माण करणे हे कार्य जैन जागृति मासिक यशस्वीपणे करत आहे. ४८ वर्षांच्या काळात जैन जागृति मासिक हजारो घरात पोहचला आहे.

### जैन जागृति मासिकास पुरस्कार

गत ४८ वर्षात जैन जागृति मासिक समाजासाठी करत असलेल्या समाज सेवेच्या कार्यामुळे अनेक गुरु भगवंत, जैन संस्था, संघानी भगवान महावीर जयंती, पर्युषण पर्व, स्थानक उद्घाटन, दीक्षा महोत्सव, प्रतिष्ठा महोत्सव इ. प्रसंगी संपादकाचा सत्कार केला आहे. गत वर्षात जैन जागृतिचे दोन विशेष सत्कार झाले आहेत.

### गुरु आनंद कार्यक्षम पत्रकार पुरस्कार

जैन श्रावक संघ, आनंद दरबार, पुणे येथे गुरु आनंद कार्यक्षम पत्रकार पुरस्कार जैन जागृतिचे संपादक श्री. संजयजी व सौ. सुनंदाजी चोरडिया यांना २३ जुलै रोजी देण्यात आला. श्रमण संघीय सलाहकार प.पू. श्री दिनेशमुनिजी म.सा., डॉ. द्विपेन्द्रमुनिजी म.सा., डॉ. पुषपेन्द्रमुनिजी म.सा. यांच्या निश्रेत आमदार श्री. भिमरावजी तापकीर, नगरसेवक श्री. प्रवीणजी चोरबेले, श्री. अभयजी संचेती, संघाचे अध्यक्ष श्री. बाळासाहेब धोका यांच्या हस्ते पुरस्कार देण्यात आला.

### पुणे मनपा तर्फे सन्मान

पुणे शहरातून गत ४८ वर्षे जैन जागृति नियमित प्रकाशित होऊन समाजसेवेचे मोठे कार्य केल्याबद्दल व पुण्यातील विविध धार्मिक, सामाजिक कार्यात सक्रिय सहभागाबद्दल पुणे मनपा तर्फे १५ ऑगस्ट २०१७ रोजी संपादक श्री. संजय चोरडिया व सौ. सुनंदा चोरडिया यांना सन्मानचिन्ह देऊन सन्मान करण्यात आला. पुण्याचे महापौर सौ. मुक्ता टिळक, सभागृह नेता श्री. श्रीनाथजी भिमाले, नगरसेवक श्री. प्रवीणजी चोरबेले, उपमहापौर इ.च्या हस्ते सन्मान चिन्ह देण्यात आले.

### ४८ व्या वर्षात १८७२ पाने प्रकाशित

जैन जागृति मासिकाने ४८ व्या वर्षाच्या (सप्टेंबर २०१६ ते ऑगस्ट २०१७) काळात १८७२ पानांचा मजकूर प्रकाशित केला आहे.

### www.jainjagruiti.in

जैन जागृति मासिकाची www.jainjagruiti.in ही वेबसाईट अल्पकाळात लोकप्रिय झाली आहे. या वेबसाईटवर जैन जागृति संबंधी सर्व माहिती दिलेली आहे. जैन जागृति अंकातील लेख, विशेष बातम्या, जाहिरातीचे, वर्गणीचे दर, विविध जाहिरातीचे नमुने, मासिकाचा इतिहास, वधू-वर जाहिराती तसेच वेबसाईटच्या गॅलरीवर महाराष्ट्र शासनाचे जैन समाजाच्या संदर्भात निघालेले G.R., जैन ध्वज, अष्टमंगल, चौदा स्वप्ने इत्यादी माहिती दिलेली आहे. अल्पकाळात खुप लोकांनी वेबसाईटला भेट दिली आहे.

या वेबसाईट द्वारे अनेक समाजबांधव ऑनलाईन जैन जागृति वर्गणी व जाहिरातचे पेमेंट भरत आहेत. जास्तीत जास्त लोकांनी या सुवीधेचा लाभ घ्यावा.

### जाहिरातदारांचे सहकार्य

जैन जागृति गेली ४८ वर्षे मासिक प्रकाशन द्वारे समाजाची जी सेवा करित आहे, त्याला आमच्या जाहिरातदारांचे मोलाचे सहकार्य मिळत आहे. जैन जागृति प्रकाशित होणारे चांगले व वाचनिय साहित्य, नियमितपणा, संप्रदाय सद्भाव, संपूर्ण भारतात प्रचंड वर्गणीदार व जाहिरातीचे माफक दर या जैन जागृतिच्या वैशिष्ट्यामुळेच जैन जागृति मासिकाला शहर, तालुका, अगदी लहान गावातील समाज बांधवांनी कायम जाहिरातीचे सहकार्य दिले आहे. जाहिरातदारांच्या सहकार्यामुळेच जैन जागृति मासिक अनेक विशेषांकासहित दरमहा नियमित प्रकाशित होत आहे.

आजच्या स्पर्धेच्या युगात जाहिरात ही अत्यावश्यक बाब झाली आहे. जैन समाजात 'जैन जागृति' हे सर्वांत प्रभावी माध्यम आहे. म्हणून आपणही आपल्या व्यवसायाची जाहिरात 'जैन जागृति' मध्ये द्यावी ही विनंती.

### वधू - वर जाहिराती

जैन जागृति मासिकात दरमहा अनेक वधूवर जाहिराती प्रसिध्द होत आहे व या जाहिरातींना फार चांगला प्रतिसाद सर्व समाज बांधवांकडून मिळत आहे. जाहिराती प्रसिध्द झाल्यावर अनेकांचे लग्न झाले आहेत.

जैन जागृति मासिकात आपल्या परिवारातील मुला-मुलींची विवाह विषयक जाहिरात दिल्यास, हजारा जैन परिवारापर्यंत आपण पोहोचतो व त्यामुळे आपणांस वधू-वर निवडताना योग्य चॉईस मिळण्यास मदत होते.

### वर्गणी पाठवा

दरमहा आमच्या ऑफिसमधून ज्यांची वर्गणीची मुदत संपली त्यांना वर्गणी संपल्याचे सूचना पत्रक पाठवले जातात. तरी आमच्या सभासदांना विनंती आहे की पुढील वर्गणी पुणे चेक, AT PAR चेक, RTGS, वेबसाईट द्वारे ड्रॉफ्ट किंवा रोख मनीऑर्डरने "जैन जागृति" नावाने पाठवावी. जैन जागृतिचे ग्राहक संख्या लक्षात घेता प्रत्येक वर्गणीदारांची वर्गणी प्रतिनिधीमार्फत गोळा करता येणे अशक्य असल्यामुळे वर्गणीदारांनी आपली वर्गणी पाठवून सहकार्य करावे.

आपल्या वर्गणी सोबत आपले मुले, मुली, नातेवाईक, मित्र परिवार, व्यापारी बंधू यांचीही वर्गणी भरून त्यांना अंक भेट पाठवावे.

### जिल्हावार प्रतिनिधी

जैन जागृति मासिक जास्तीत जास्त समाज बांधवां पर्यंत पोहचण्यासाठी जैन जागृतिने ३५ प्रतिनिधींना नेमले आहेत. ज्या गावात, शहरात २०० पेक्षा जास्त जैन बांधव राहतात त्या त्या गावात, शहरात जैन जागृतिचे नवीन प्रतिनिधी नेमले जात आहे. ज्या बांधवांना, हे कार्य करण्याची इच्छा आहे त्यांनी जैन जागृतिशी संपर्क साधावा. आपली नोकरी व व्यवसायाबरोबर जैन जागृतिचे कार्य करू शकाल.

गत वर्षात जैन जागृति मासिकाद्वारे कळत नकळत कोणाची मने दुखावली असल्यास जैन जागृति-चोरडिया परिवार आपली हार्दिक क्षमायाचना मागत आहे. ●



## पर्युषण के आठ दिन : आठ जीवन सूत्र

लेखक : श्री ज्ञानमुनिजी म.सा.

पर्युषण के अर्थ पर हमने चिन्तन किया तो इसके सबसे महत्वपूर्ण दो अर्थ हमारे सामने प्रकट होते हैं -

पहला यह कि पञ्जुसणा - पर्युपासना है। अर्थात् आत्मा के समीप आना, आत्मा के सम्मुख रहना और आत्मा द्वारा आत्मा का ध्यान लगाना।

दूसरा अर्थ है - पञ्जुसमणा - पर्युपशमना अर्थात् मन के विकारों को, उत्तेजना को, तृष्णा की व कषायों की अग्नि को समता भाव की वृष्टि द्वारा शान्त करना, मन व आत्मा को शीतल बनाना।

ये दोनों ही अर्थ पर्युषण को पूर्ण सार्थकता प्रदान करते हैं। पर्युषण का उद्देश्य और उसकी परिणती हमारे सामने उजागर कर देते हैं।

अब प्रश्न है, वर्तमान में हम जो पर्युषण मनाते हैं, वह आठ दिन का मनाया जाता है। जैन परिभाषा में इसे अष्टान्हिक पर्व कहा जाता है। अष्टान्हिक का अर्थ है - आठ दिन का पर्व।

दूसरी मान्यता के अनुसार पर्युषण एक दिन का भी होता है। वर्तमान में जिसे हम सांवलिक प्रतिक्रमण कहते हैं, वह संवत्सरी का दिन ही मुख्य रूप से पञ्जोसवणा माना गया है। वैसे एक दिन व आठ दिन की दोनों परम्परा सिर्फ प्रथम और अन्तिम तीर्थकरों के शासनकाल में ही विहित है। मध्य समय के २२ तीर्थकरों के शासन में पर्युषण काल जैसा कोई विधान नहीं है। उनके युग में यह परम्परा रहती है कि जब भी चारित्र में कोई दोष लगा हो तो प्रतिक्रमण या क्षमापना कर लेवें। अस्तु।

वर्तमान में आठ दिवसीय पर्युषण की परम्परा प्रचलित है और उसका आधार है - जीवाभिगम सूत्र तथा अन्य प्राचीन ग्रन्थों के उल्लेख। जीवाभिगम सूत्र में

बताया है - वर्ष में चार अष्टान्हिक पर्व आते हैं। कुछ प्राचीन ग्रन्थों में छह अष्टान्हिक पर्वों का भी उल्लेख है। चार अष्टान्हिक पर्व ये हैं -

१. आषाढ सुदी ७ से पूनम तक
२. आश्विन सुदी ७ से पूनम तक
३. चैत्र सुदी ७ से पूनम तक
४. पर्युषण पर्व (भाद्रपद मास में)

माना जाता है कि इन दिनों में देवगण नन्दीश्वर द्वीप में जाते हैं और वहाँ अठाई महोत्सव मनाते हैं। यह अठाई महोत्सव या अष्टान्हिक पर्व आठ दिन का होता है, इसलिए पर्युषण पर्व आठ दिन का मनाने की एक प्राचीन परम्परा चल रही है। छह अष्टान्हिक पर्व मनाने वाले कार्तिक सुदि ७ से १४ तक तथा फाल्गुन सुदि ७ से १४ तक भी मानते हैं।

**पर्युषण के चार परम कर्तव्य -**

पर्युषण के दिनों में धार्मिक आराधना की प्रेरणा अनेक प्रकार से कर्तव्य बोध द्वारा दी गई है। प्राचीन ग्रन्थों में चार कर्तव्यों का विशेष रूप में उल्लेख मिलता है। जैसे -

**पव्वेसु पोसहाइ-बंध-अणारम्भ-तव-विसेसाइ।**

पर्व दिनों में चार प्रकार से धर्माधना करनी चाहिए।

१. पौषध व्रत
२. ब्रह्मचर्य का पालन
३. आरम्भ - समारम्भ का त्याग
४. विशेष तप।

**पौषध : परम औषध**

प्राचीन समय में श्रावकों के पर्व दिनों के कर्तव्य के विषय में उल्लेख मिलता है, वे हैं - अष्टमी,

चतुर्दशी, अमावस, पूर्णिमा । इन पर्व-तिथियों में पौषध करते थे । पौषध का अर्थ है - उपवास करके धर्मध्यान पूर्वक निवृत्ति में जीवन बिताना । पौषध एक प्रकार की बड़ी सामायिक और छोटा साधु जीवन है । सामायिक ४८ मिनट की होती है । ४८ मिनट तक हिंसा आदि पाँच आस्त्रवों का त्याग करना, समभावों में मुनि की तरह जीवनचर्या रखना । सामायिक करता हुआ श्रावक श्रमणभूत कहलाता है । “सममाणस्स सामाज्यं होहि।” समभाव में रमण करने वाला अथवा जिसका मन सम हो, विषमता से मुक्त हो, उसे सामायिक कहते हैं । सामायिक श्रावक का ८ वाँ व्रत है । पौषध १० वाँ व्रत है । इसमें कम से कम चार प्रहर अथवा आठ प्रहर तक श्रमण की भाँति सम्पूर्ण सावद्य प्रवृत्तियों को त्यागकर वे आत्म-चिन्तन और समतायोग में, स्वाध्याय-प्रतिक्रमण और आत्म-आलोचना में समय बिताना पौषध व्रत है । प्राचीन श्रावकों के वर्णन में आता है उनके घर के निकट या नगर के एकान्त स्थान में धर्मध्यान करने के लिए पौषधशाला होती थी । पर्व-तिथियों में वहीं जाकर उपवासपूर्वक पौषध व्रत लेकर धर्म जागरणा करते थे । आज शहरी सभ्यता में घर में पौषधशाला तो क्या, सामायिक करने को एकान्त स्थान भी मिलना मुश्किल है । यदि स्थान है तो उसे सजाकर ड्राइंग रूम या बैठक तो बनाई जा सकती है । परन्तु सामायिक या ध्यान-पूजा-पाठ के लिए घर में कोई स्थान नहीं रहता । किन्तु प्राचीन काल में घर बनाते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाता था, दुकान जैसे कमाईकी जगह है । दीवानखाना गपशप करने, बैठने या मनोरंजन का स्थान है । वैसे ही पौषधशाला अपने आप के निरीक्षण करने के लिए अपनी आत्मा का आराम घर है । परन्तु आज के आराम, विश्राम की चिन्ता किसे है, फुर्सत किसे है ?

पौषध वास्तव में आत्मा का विश्राम-केन्द्र है । इसमें न केवल आरम्भ-समारम्भ से विश्रान्ति मिलती है, किन्तु मानसिक रूप से भी बड़ी शान्ति, सकुन और

समाधि का अनुभव होता है । घर, परिवार, समाज और संसार की चिन्ताओं से मुक्त होकर मन में प्रसन्नता, आत्मा में हल्कापन और राग-द्वेष की उपशान्ति का अनुभव किया जा सकता है ।

पौषध में भोगों की विस्मृति और भगवान् की स्मृति का आलम्बन है । पौषध मन का एक ऐसा परिवर्तन है, जिसमें सुख-शान्ति का अनुभव किया जा सकता है । पुराने संत कहते थे - पौषध यानी परम औषध । मन के विकार दूर करके आत्मा की शक्ति बढ़ाने वाला एक दिव्य रसायन है - पौषध ।

**आरम्भ त्याग -**

जिस दिन पौषध नहीं करना हो, उस दिन कम से कम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य ही करना चाहिए। यों तो चातुर्मास के दो मास में ब्रह्मचर्य का विशेष विधान है, यदि दो मास ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सके तो कम से कम पर्व तिथियों को और पयुर्षण के आठ दिनों में तो ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य ही करना चाहिए । ब्रह्मचर्य अपने आप में एक महान् तप है । ब्रह्मचर्य पवित्रता का मन्दिर है । आचार्यों ने कहा है - जे देह कणय कोडिं अहवा कारेइ कणय जिण भवणं । तस्स न तत्तियपुण्णं जत्तिय बंभवए धरिए ॥

कोई मनुष्य एक करोड़ स्वर्ण-मुद्रा का दान देवे अथवा सोने का जिन-मन्दिर बना देवे, उसको भी उतना पुण्य नहीं होता, जितना शुद्ध मनसे ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले को होता है । आप करोड़ स्वर्ण-मुद्रा नहीं दे सकते, हजार भी नहीं दे सकते तो कोई चिन्ता की बात नहीं । भूखों को अन्न नहीं दे, उग्र तप नहीं कर सकते तो भी कोई चिन्ता की बात नहीं, आपके लिए भगवान् ने इतना सहज और स्व-साध्य तप बता दिया है, जिसके लिए एक भी पैसा खर्च करना नहीं, भूखा रहना नहीं, बस शुद्ध मन से ब्रह्मचर्य का पालन करो तो आप सबसे बड़ा पुण्य का कार्य कर सकते हो । यह महान् तप आपके हाथ में है । मन को विषयों से विरक्त

बनाने की जरूरत है। कम से कम पर्युषण के आठ दिन में तो आप इस महान् तप की आराधना कर ही सकते हैं।

#### अनारम्भ -

पर्व दिनों में ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए जिसमें अधिक जीव-हिंसा होती हो। आरम्भ के सैंकड़ों प्रकार हैं इनकी सूची बताने की जरूरत नहीं, श्रावक को स्वयं अपना विवेक जाग्रत रखना चाहिए और जितना अधिक हो सके, हिंसा से, असत्य भाषण से, कटु वचनों से, क्रोध आदि कषायों से बचने का प्रयास करना चाहिए।

#### विशेष तप -

यदि आप सामान्य रूप में नवकारसी, पोरसी आदि तप करते हैं तो पर्युषण में एकासना, आयंबिल, उपावस, बेला, तेला आदि तप करें। पर्युषण के प्रारंभ के तीन दिनों में तेला अथवा अन्तिम दिनों में तेला करके विशेष तपाराधना में सम्मिलित होने का प्रयास करें।

इससे भी आगे बढ़ने की शक्ति हो तो आठ दिनों की अठाई भी की जा सकती है। मुख्य बात है - शक्ति के अनुसार भक्ति करें। भक्ति में, तप में किसी की नकल या प्रतिस्पर्धा न करें। अपनी आत्मा की प्रेरणा व मन का उत्साह, शरीर की शक्ति देखकर तपश्चर्या के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए।

#### अभयदान -

पर्युषण के आठ दिन अहिंसा जीव-दया के पवित्र दिन हैं। इन दिनों घर में हिंसा न हो तो मुख्य कर्तव्य है। परन्तु आपके नगर या राज्य में जहाँ हो सके, कसाई खाने बन्द करवा कर जीव-दया का प्रचार करना चाहिए। पर्युषण के आठ दिनों में आपके नगर का पूरा वातावरण अहिंसामय हो जाय। मांसाहारी भी स्वतः प्रेरणा से, आपके उद्बोधन से मांसाहार का त्याग करें। हिंसा का धंधा करने वालों से पशु-पक्षियों को अभयदान दिलावें, बूचड़खाने बन्द रहें, किसी भी निरपराध जीव का खून

न बहे। किसी के जीवन पर मृत्यु की तलवार चले और आपका हृदय न काँपे तो क्या यह सम्यकत्वधारी की पहचान है ?

खंजर चले किसी पर, तड़पते हैं हम 'अमीर'। सारे जहाँ का दर्द, हमारे जिगर में है ॥

अनुकम्पा का अर्थ ही है - दूसरों को काँपते देखकर आपका हृदय भी काँप उठे। आचार्यों का कहना है - "जो उ परं कंपतं दट्टूण न कंपए कठिण भावो।" दूसरों को दुख से पीड़ित देखकर भी जिसका हृदय नहीं कांपता है, वह कठोर हृदय कहलाता है। दूसरे को दुखी देखकर द्रवित होना अनुकम्पा है। यह उच्चकोटि की संवेदनशीलता ही मानवीय गुण है।

#### पर्युषण में आगम वाचन -

"पर्युषण के आठ दिनों में अन्तगडसूत्र और कल्पसूत्र ही सब जगह पढ़ा जाता है, इसका क्या कारण है ?"

पहली बात तो यह है कि कल्पसूत्र कोई स्वतंत्र आगम नहीं है, किन्तु यह दशाश्रुतकन्ध का आठवाँ अध्ययन है। इसके तीन विभाग हैं। पहले विभाग में चौबीस तीर्थकरों का पावन जीवन-चरित्र है, दूसरे में साधुओं की समाचारी-आचार-विधि, कल्प-अकल्प का वर्णन है और तीसरे विभाग में स्थविरावली है अर्थात् भगवान् महावीर के उत्तरवर्ती जैनशासन के प्रमुख आचार्यों का संक्षिप्त वर्णन है। शायद कभी विस्तृत वर्णन भी रहा हो, परन्तु आज बहुत संक्षिप्त सूचना भर मिलती है।

कहा जाता है - प्राचीन समय में रात्रि के प्रथम प्रहर में साधुवर्ग सामूहिक रूप में कल्पसूत्र के समाचारी खण्ड का वाचन करते थे। इससे अपने नियम व कल्पों, मर्यादा, गमनागमन, केशलोच, क्षमापना आदि सभी विषयों पर विशद ज्ञान हो जाता था और उसके अनुसार यदि कल्प में कहीं कोई दोष लगा हो तो जागरूकता आ जाती थी।

फिर भगवान् महावीर निर्वाण के लगभग एक



हजार वर्ष बाद आनन्दपुर नगर में ध्रुवसेन नाम का राजा हुआ। वह जिन धर्मानुयायी श्रावक था, पर्युषण के दिनों में ही उसका इकलौता पुत्र मर गया। स्वाभाविक ही था, राजा शोक में डूब गया। पूरे राज्य में उदासी और शोक का वातावरण छा गया। इधर पर्युषण चल रहा था। लोगों में धार्मिक उत्साह था। उधर राज्य में शोक का वातावरण। उस समय एक विद्वान् ने आचार्य को राजा के समक्ष कल्पसूत्र का वाचन कर शोक निवृत्ति की प्रेरणा दी। अपने आराध्य पुरुषों का रोचक जीवन चरित्र सुनने से सभी में धर्मोत्साह जगा। वातावरण बदल गया। शोक की जगह धार्मिक उत्साह और श्रद्धा का वातावरण बन गया। राजा को भी यह उपक्रम अच्छा लगा और श्रावक वर्ग को भी। इस कारण पर्युषण में प्रतिवर्ष कल्पसूत्र का सामूहिक वाचन करने की एक परम्परा चल पड़ी।

इन परम्परा को पुष्ट करने वाले भी कुछ कारण थे। उस समय में वैदिक-परम्परा में चातुर्मास काल में भागवत, महाभारत, रामायण आदि के सप्ताहभर सामूहिक कथा वाचन की परम्परा चल रही थी। वे प्राचीन कथाएँ बड़ी रसीली भाषा-शैली में होने के कारण लोगों का आकर्षण उधर हो रहा था। बौद्ध परम्परा में भी तथागत बुद्ध व बोधिसत्त्वों के जीवन-चरित्र की रोचक कथाएँ सुनाई जाती थीं। जैन परम्परा में ऐसी कोई प्रथा नहीं थी। कल्पसूत्र का वाचन जब हुआ तो लोगों को लगा-यह सूत्र भागवत आदि का स्थान ले सकता है। यह उतना ही रूचिकर, ज्ञानवर्द्धक और रसप्रद है। फिर समाज को अपने इतिहास का गौरव भी होता है। इतिहास ही समाज में प्राण फूँकता है। कहावत है जिस राष्ट्र का इतिहास नहीं, वह राष्ट्र ही समाप्त हो जाता है। मनुष्य का यह सरल मनोविज्ञान है कि वह अपने श्रद्धेय पुरुषों का गौरव गान सुनकर उत्साहित होता है, प्रेरणा लेता है और गौरव का अनुभव करता है। तो इसी कारण धीरे-धीरे पर्युषण में कल्पसूत्र वाचन की एक परम्परा चल पड़ी और यह एक अच्छी स्वस्थ परम्परा थी।

इसलिए सम्पूर्ण जैन समाज में मन्दिरमार्गी, स्थानकवासी व तेरापंथी तीनों ही परम्पराओं में इसे महत्व मिला।

अन्तगढ़सूत्र की वाचन परम्परा का कोई इतिहास साक्ष्य तो नहीं है। कब, किन परिस्थितियों में किन आचार्यों ने इसका आरम्भ किया, परन्तु जिन आचार्यों ने भी अन्तगढ़सूत्र वाचन की परम्परा की, वे वास्तव में ही बहुत दूरदर्शी और तेजस्वी अवश्य होंगे। उनकी सूक्ष्म प्रज्ञा ने देखा, समाज में चारों ओर चमत्कार और आडम्बरों की पूजा हो रही है। त्याग-तप की पृष्ठभूमि पर चलने वाला जैन समाज भी आडम्बरप्रिय हो रहा है। अध्यात्म से दूर और आडम्बरों के चक्रव्यूह में फँसता जा रहा है। तब ऐसे समय में समाज को तप, त्याग, तितिक्षा आदि की प्रेरणा देकर नव-जीवन फूँकनेवाला आगम उनके ध्यान में आया।

अन्तगढ़सूत्र में भगवान् नेमिनाथ और भगवान् महावीर युग के १० आत्म-साधकों का बड़ा ही रोमांचक, रोचक, और त्याग-तपोमय जीवन है। गजसुकुमार जैसे बाल-मुनि की घोर तितिक्षा व अद्भुत सहिष्णुता का रोमांचित करनेवाला वर्णन है तो महाराज श्रीकृष्ण की रानियाँ व पद्मावती आदि तथा राजा श्रेणिक की रानियाँ काली आदि की कठोर तपश्चर्या का वर्णन सुनकर श्रोता के मन में सहज ही तप की प्रेरणा जगने लगती है। यह ११ अंगों में आठवाँ अंगसूत्र है। इसके आठ वर्ग हैं और पर्युषण के आठ दिनों में इसका वाचन किया जाता है। इतिहास-लेखकों का अनुमान है कि अन्तगढ़सूत्र वाचन की परम्परा लोकाशाह की धर्म-क्रांति का परिणाम भी हो सकता है। क्योंकि उस समय धर्म के नाम पर आडम्बरों का बोबाला था और तप-त्याग की महिमा क्षीण होती जा रही थी। उस त्याग-तपोमय जीवन की गरिमा-महिमा का शंखनाद फूँकने के लिए इस आगम का वाचन प्रारंभ किया गया हो, यह बात उचित ही प्रतीत होती है। अस्तु, पर्युषण में आगमवाचन की परम्परा का यही एक संक्षिप्त प्रसंग है।

## कच्छर तपशील - सप्टेंबर २०१७

- ❖ **वॉटर कप स्पर्धा – भारतीय जैन संघटना**  
श्री. अमीर खान यांच्या पाणी फाँडेशन तर्फे वॉटर कप स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले. याचा बक्षीस समारंभ बालेवाडी पुणे येथे भव्य कार्यक्रमात संपन्न झाला. भारतीय जैन संघटने तर्फे विविध गावांमध्ये जेसीबी, पोकलेनसह आवश्यक मशीनरी पुरवण्यात आली. जवळपास ७३ हजार ६९८ तास ही विनामूल्य सेवा पुरविण्यात आली. या विशेष कार्यबद्दल भारतीय जैन संघटनेचे संस्थापक श्री. शांतीलालजी मुथ्था यांचा सत्कार मुख्यमंत्री श्री. देवेन्द्रजी फडनवीस यांच्या हस्ते करण्यात आला.
- ❖ **‘श्री उवस्सहगरं स्तोत्र’ पठण, पुणे**  
पुणे येथील उद्योजिका सौ. शोभाताई रसिकलालजी धारीवाल यांनी १३ ऑगस्ट रोजी बिबवेवाडी जैन स्थानक जवळ यश लॉन येथे श्री उवस्सहगरं स्तोत्र पठणाचे आयोजन केले. यावेळी प.पू. शुभमजी, प.पू. प्रीतिसुधाजी आदी ठाणा, श्री रसिकलालजी धारीवाल, सौ. शोभाताई धारीवाल, जान्हवी धारीवाल व अनेक प्रतिष्ठित मान्यवर उपस्थित होते. सुमारे दहा हजार लोकांनी यात भाग घेतला.
- ❖ **बाल शतावधान कार्यक्रम, पुणे**  
श्री सरस्वती साधना रिसर्च फाँडेशनच्या वतीने १५ ऑगस्ट स्वातंत्र्यदिनी बाल शतावधान कार्यक्रम अण्णाभाऊ साठे सभागृह येथे आयोजित करण्यात आला. यावेळी बालमुनी पद्मप्रभचंद्र सागरजी म.सा. (वय १४) यांनी १०८ गोष्टींचा शतावधान कार्यक्रम सादर केला. यावेळी फार मोठा जनसमुदाय उपस्थित होता.
- ❖ **बालमुनी श्लोकाचे वाचन, पुणे**  
श्री राजस्थान जैन श्वेतांबर संघ, रास्ता पेठ पुणे

येथे अडीच तासामध्ये ३५० श्लोकाचे वाचन करून जागतिक स्तरावरचा विश्वविक्रम करणारे नमीचंदसागर महाराज व नेमीचंद सागर महाराज या जुळ्या भावडांनी सोमवार पेठ मधील जैन मंदिरात श्लोकाचे वाचन केले. यावेळी मोठा जनसमुदाय उपस्थित होता.

- ❖ **श्री. संजय चोरडिया – पुणे मनपा सत्कार**  
पुणे शहरातून गत ४८ वर्षे जैन जागृति नियमित प्रकाशित करून समाजसेवेचे मोठे कार्य केल्याबद्दल व पुण्यातील विविध धार्मिक, सामाजिक कार्यात सक्रिय सहभागाबद्दल पुणे मनपा तर्फे १५ ऑगस्ट २०१७ रोजी संपादक श्री. संजय चोरडिया व सौ. सुनंदा चोरडिया यांना सन्मानचिन्ह देऊन सन्मान करण्यात आला. पुण्याचे महापौर सौ. मुक्ता टिळक, सभागृह नेता श्री. श्रीनाथजी भिमाले, नगरसेवक श्री. प्रवीणजी चोरबेले, उपमहापौर इ.च्या हस्ते सन्मान चिन्ह देण्यात आले.
- ❖ **श्री. संतोषजी जैन, पुणे – सन्मान**  
पुणे येथील युवा उद्योजक व सामाजिक कार्यात अग्रेसर श्री. संतोषजी जैन यांचा १५ ऑगस्ट रोजी सुजय गार्डन परिवारा तर्फे सन्मान करण्यात आला.
- ❖ **द शेलार टी.व्ही.एस. वर्कशॉप – उद्घाटन**  
श्री. जितेंद्र मुनोत व श्री. समीर शेलार यांच्या अत्याधुनिक व संपूर्ण ऑटोमॅटीक ५५०० स्क्वे. फूट ‘द शेलार टी.व्ही.एस.’ वर्कशॉपचे उद्घाटन कोथरुड, पुणे येथे स्थायी कमिटी अध्यक्ष श्री. मुरलीधरजी मोहळ, नगरसेवक श्री. पृथ्वीराजदादा सुतार व मुनोत परिवार यांच्या हस्ते झाले.
- ❖ **खुशी ट्रेडर्स, चिंचवड – उद्घाटन**  
क्वीन्स टाऊन, चिंचवड येथील खुशी ट्रेडर्स या नूतन शॉपिंग मॉलचे उद्घाटन श्री. कन्हैयालालजी, श्री. चांदमलजी, श्री. पोपटलालजी, श्री. लालचंदजी लुंकड यांच्या हस्ते करण्यात आले.

- ❖ **संचेती ट्रस्ट, पुणे – जन जागृति अभियान**  
पुणे येथील स्व. इंदूमती बन्सीलालजी ट्रस्टच्या वतीने पुणे शहरात जनजागृति करण्यात आली. गणेशोत्सवात शाडू मातीच्या गणेशमूर्तीची प्रतिष्ठापना करून गणेशोत्सव खऱ्या अर्थाने पर्यावरण पुरक करावा असे आवाहन करण्यात आले. यावेळी ट्रस्टचे अध्यक्ष श्री. अभयजी संचेती, मा. नगरसेवक श्री. अभयजी छाजेड इ. मान्यवर उपस्थित होते. ●



**आत्मा का स्वभाव क्रोध नहीं,  
बल्कि क्षमा भाव है**

लेखक : आचार्य श्री ज्ञानसागरजी म.सा.

सहिष्णुता, भाईचारा, विवेक, प्रेम और वात्सल्य जीवन के ऐसे अंग हैं, जिनसे क्रोध का शमन होता है। अतः क्रोध का सर्वथा त्याग करना चाहिए। क्रोध करने वाला संत नहीं हो सकता तथा ऐसा व्यक्ति मुर्दा कहलाता है। क्रोध का आत्मा पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यह कषाय है तथा इससे मानसिक प्रदूषण फैलता है। क्रोध व्यक्ति को ही नहीं, उसके आस-पास के वातावरण को भी दूषित कर देता है। जो व्यक्ति क्रोध करता है वह अनेक प्रकार के विषाणुओं और कीटाणुओं को जन्म देता है।

अपने इच्छानुकूल कार्य न होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है तथा क्रोधी व्यक्ति आवेश में आकर परिवार या समाज के लिए खतरनाक कार्य कर बैठता है जिसके दुष्परिणाम उसे जीवन भर भुगतने पड़ते हैं।

क्रोध पर जो काबू पा लेता है उसका कभी भी कुछ नहीं बिगड़ता। जो क्रोध को काबू में नहीं कर पाता, उसके साथ एक भव का बैर काफी समय तक चलता रहता है। साहित्य ऐसे अनेक ज्वलंत उदाहरणों से भरा पड़ा है।

मनुष्य को जो थोड़ा-सा जीवन मिला है, उसको क्रोध रूपी शत्रु के चंगुल में फँसकर व्यर्थ नहीं करना

चाहिए। जिनको धर्मात्मा एवं सम्यक् दृष्टि बनना है, उन्हें बैर एवं क्रोध कभी भी नहीं करना चाहिए। क्रोध इंसान को शैतान बना देता है, मित्र को दुश्मन बना देता है। क्रोधी व्यक्ति को कोई भी पसंद नहीं करता। सभी उससे दूर रहना ही पसंद करते हैं क्योंकि क्रोध करने से मनुष्य का व्यवहार बिलकुल शैतान के जैसा हो जाता है। क्रोध आत्मघात होता है। यह इंसान को अंदर ही अंदर खाता चला जाता है जिससे व्यक्ति अच्छे-बुरे में फर्क करना भूल जाता है। अतः जीवन में इससे बचना ही श्रेयस्कर है। क्षमा एक ऐसा बहुमूल्य अस्त्र है जिसे कायर व्यक्ति धारण नहीं कर सकता। जीवन में सहिष्णुता, सहनशीलता एवं सात्विकता से क्रोध पर विजय पाई जा सकती है। तामसिक पदार्थों के सेवन से भी क्रोध की उत्पत्ति होती है। शाकाहारी व्यक्ति भद्र होते हैं। अतः वे क्रोध से सदैव दूर रहा करते हैं।

संतों के सामने क्रोध का वातावरण आने पर भी वे सदैव शांत रहते हैं। क्रूरतम व्यक्ति भी संतों के समक्ष नतमस्तक हो जाते हैं। इसलिए बोलो कम, सूनो ज्यादा। जीवन में समता धारण करना ही क्रोध पर विजय प्राप्त करना है। बैरभाव पैदा मत होने दो। यही विवेक है और इससे ही आत्मशांति प्रकट होती है। ●

**जैन जागृति – ऑक्टोबर २०१७  
दीपावली अंक**

## वॉटर कप स्पर्धा : भारतीय जैन संघटनेच्या विशेष योगदानाचे कौतुक जलसंधारणा साठी ७४ हजार तास विनामूल्य सेवा

मुथ्था म्हणाले, भारतीय जैन संघटनेने आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांची एक हजार मुले दत्तक घेतली आहेत. या मुलांनीही श्रमदान करून पाणी बचतीचा संदेश दिला आहे. लातूर-किल्लारीला झालेल्या भूकंपात मातापित्याचे छत्र गमावलेल्या बाराशे मुलांचा साभाळ संस्थेने केला.

आमिर खान आणि सत्यजीत भटकळ यांच्या सोबत अनेक बैठका झाल्या. जी गावे आपले उद्दिष्ट पूर्ण करतील त्यांना मशीनरी देण्याचा निर्णय आला. काही भागात परराज्यातून मशीनरी आणण्यात आली. संघटनेचे ६०० कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. राज्य दुष्काळमुक्त झाल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही. ●

पुणे : सामाजिक क्षेत्रामध्ये ३२ वर्षांपासून अधिक काळ काम करित असलेल्या भारतीय जैन संघटनेच्यावतीने (बीजेएस) आजवर २० पेक्षा अधिक

नैसर्गिक आपत्तींमध्ये मदतकार्य उभे केले आहे. शैक्षणिक कार्यातही संघटनेचे मोठे योगदान आहे. 'पानी फाऊंडेशन' च्या वॉटर कप स्पर्धेच्या वेगळेपण लक्षात घेऊन विविध गावांमध्ये जेसीबी, पोकलेनसह आवश्यक मशीनरी पुरवण्यात आली. जवळपास ७३ हजार ६९८ तास ही विनामूल्य सेवा पुरविण्यात आली अशी माहिती संघटनेचे अध्यक्ष शांतीलाल मुथ्था यांनी दिली. सत्यमेव जयते वॉटर कप स्पर्धेच्या बक्षीस वितरण सोहळ्यामध्ये बीजेएसने केलेल्या कामाचे विशेष कौतुक करण्यात आले. बक्षीस विजेत्या गावांसह जलसंधारणाच्या कामामध्ये सहभाग घेणाऱ्या संस्थांचाही सत्कार करण्यात आला.

भारतीय जैन संघटनेने केलेल्या योगदानाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अभिनेता शाहरूख खान यांनी विशेष कौतुक केले. श्री. शांतीलाल मुथ्था यांचा विशेष सत्कारही करण्यात आला.

### नवकार फ्रेन्ड्स सर्कल, पुणे हस्तीनापूर, कांगडा, दिल्ली इ. तीर्थयात्रा

नवकार फ्रेन्ड्स सर्कल पुणे द्वारा श्री हस्तीनापूर, कांगडाजी, कपुकला, लेहरा, मलेरकोटला, दिल्ली दादावाडी, त्रिलोक तीर्थ, अमृतसर, डलहौसी इ. ११ दिवसीय तीर्थयात्रेचे आयोजन केले आहे. हा संघ पुण्यातून २० डिसेंबर रोजी रेल्वेने निघून परत ३१ डिसेंबर रोजी विमानाने येणार आहे. यात्रा तिकिट प्रति व्यक्ति रु. १९,९९९/- आहे.

संपर्क : श्री. प्रवीण गुंडेशा, मो. : ९४२३५२७५३१  
श्री. नितीश जैन, मो. : ८००७३७८२४४

### जैन जागृति - ऑक्टोबर २०१७ दीपावली अंक २० सप्टेंबर २०१७ पर्यंत जाहिरात द्या.